

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2014—भाद्र 6, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्र. एफ-70-70-2014-तीन-1368.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 331, दिनांक 1 अगस्त, 2014 में प्रकाशित किये गये सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र का आदेश एवं अनुलग्नक में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, आए हैं	शब्द, जो कि पढ़े जाएं
(1)	(2)	(3)
	पृष्ठ	पंक्तियां
नामनिर्देशन	661	आदेश के विषय से संबंधित द्वितीय पंक्ति
कालम	662	पैरा 2 की कंडिका (2) की प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम पंक्ति
*ग्राम पंचायत. जनपद पंचायत. के सदस्य पद के निर्वाचन के लिये	662	शपथ-पत्र की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति
		*ग्राम पंचायत. जनपद पंचायत. के सरपंच पद के निर्वाचन के लिये

(1)	(2)		(3)
	पृष्ठ	पंक्तियां	
(निवासी)	662(1)	कंडिका 2.1 में	(निवास)
शपथग्रहिता	662(6)	शपथ-पत्र के सत्यापन की प्रथम पंक्ति	शपथग्रहीता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.